

स्मोक अलार्म जिन्दगियां बचाता है!

अपने घर के हर तल पर एक अलार्म लगायें
और बैटरियों की नियमित रूप से जाँच करें।



यदि आग लगी हो...

तो बाहर निकल जायें
बाहर ही ठहरे रहें
और 999 पर
कॉल करें

- आपके लिए अपना और अपने घर का वचाव करने का सर्वोत्तम तरीका स्मोक अलार्म खरीदना है। स्मोक अलार्म \$5 जितनी कम कीमत में आ जाते हैं और आपको ये सुपरमार्केट्स तथा अच्छे स्टोर्स में मिल सकते हैं।



चतुर बनें !

वह जानकारी लें जो आपका जीवन बचा सकती है।

उपकरण लगावायें!

अपनी निजी सुरक्षा के लिए निवेश करना।

बाहर निकलें!

योजना बनायें। तैयार रहें।

आपकी स्थानीय आग और उससे वचाव सेवा से उपलब्ध होने वाली यह गैट स्मार्ट! गैट इक्विपड! गैट आउट! लीफलेट आग से सुरक्षा की श्रृंखलाओं में से एक है। इस श्रृंखला के अन्य लीफलेट आग से सुरक्षा के उपकरण, माता-पिता और बच्चों के लिए आग से सुरक्षा, तथा उन लोगों के लिए अतिरिक्त जानकारी प्रदान करते हैं जिन्हें देखने सम्बन्धी समस्याएं हैं या चलने फिरने में कठिनाई है।

अनुवाद और वैकल्पिक स्वरूप भी उपलब्ध हैं।

Published by the Office of the Deputy Prime Minister.
©Crown copyright 2004. Printed in the UK, January 2004,
on material containing 75% post-consumer waste and
25% ECF pulp (03DOCF01123)
Product code: Fire smoking 04hi



अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट देखें: www.firekills.gov.

Hindi

सिगरेट से आग लगती है

अपने घर को आग से बचायें



सिगरेट से सुरक्षा - ज़रूरी बातें

किसी अन्य कारण से लगने वाली आग की वजाय धूम्रपान के कारण लगने वाली आग की एक घटना में अधिक लोग मरते हैं। चूंकि तम्बाकू सुलगती रह सकती है इसलिए सिगरेट किसी दुर्घटनावश आग की शुरुआत आसानी से कर सकती है।


अपने घर और परिवार को आग से सुरक्षित रखें

अपने घर और परिवार को आग से सुरक्षित रखें।

अपनी सहज बुद्धि का प्रयोग करें - इससे होने वाले खतरों को जानें और जब आप आग बुझा चुकें तो पक्का करें कि यह वास्तव में बुझ गई है!

सिगरेट से सुरक्षा

सुनिश्चित करें कि जब आप कोई सिगरेट बुझायें, तो वह ठीक से बुझ जाये।



- यदि आप उस समय धूम्रपान करते हैं जब आपको नींद आ रही हो, प्रतिक्रिधान औपधियां ले रहे हों, अथवा यदि आप शराव पी रहे हों, तो अतिरिक्त सावधानी वरतें। यह बहुत सहज है कि आप सो जायें और यह ध्यान न दे पायें कि सिगरेट अभी भी जल रही है।
- यदि आपको लेटना है तो सिगरेट न जलायें। सो जाने या विस्तर में आग लग जाने के खतरे के बावजूद, लोग अभी भी विस्तर में धूम्रपान कर रहे हैं।

- लोग अक्सर उस समय धूम्रपान करना पसन्द करते हैं जब वे शराव पी रहे होते हैं। परन्तु वह व्यक्ति जो कुछ ड्रिंक्स ले चुका है, अपने हाथ में सिगरेट लिये हुए वैहोश हो सकता है। नतीजा? गम्भीर रूप से जल जाना, स्थायी निशान पड़ जाना, अथवा मृत्यु भी।



आप जितना सोचते हैं, वे उससे कहीं अधिक गर्म होती हैं - सिगरेट 700° सेंटीग्रेड से अधिक तापमानों पर जल सकती हैं।

- आसपास कोई जली हुई सिगरेट, सिगार या पाइप को पड़ा न रहने दें। वे जलते हुए आसानी से गिर सकते हैं, किसी कार्पेट या अखवार पर गिर सकते हैं, और आग लगा सकते हैं।



- जिम्मेदारी स्वीकारें तथा लाइटर्स और माचिसों को वच्चों की पहुँच से दूर रखें।
- वच्चे हर साल सिगरेटों और लाइटर्स से लगने वाली आग से मरते हैं जो कि उनके पास नहीं होने चाहियें।



- बाल-प्रतिरोधक लाइटर्स और माचिसों खरीदने पर विचार करें। माचिसों पर अव यह चेतावनी लैबल लगा होता है।



- उचित ऐशट्रे का प्रयोग करें। सुनिश्चित करें कि ऐशट्रे भारी हो, आसानी से लुढ़कने वाली न हो, और ऐसे पदार्थ से बनी हुई हो जो आग न पकड़े।

- अपनी सिगरेट की राख को कभी भी रद्दी कागज की टोकरी में न झाड़ें - केवल ऐशट्रे में ही झाड़ें। सुनिश्चित करें कि यह आसानी से लुढ़के नहीं और राख को इकट्ठा न होने दें।

वास्तविक जिन्दगी - धूम्रपान करने के लिए वेचैन?



निक 21 वर्ष का था और वह यूनिवर्सिटी में अन्तिम वर्ष में पढ़ रहा था। वर्ष 2001 में क्रिसमस से ठीक पहले, वह एक नाइट-आउट के बाद घर पर लौटा और सोफे पर सो गया, इस बात से अन्जान कि सिगरेट का सिरा अभी भी सुलग रहा था। सोफा जलना शुरू हो गया, और उससे कमरे में धुआं भरने लगा। गर्मी के कारण निक की आँख खुली परन्तु वह जहरीले धुँए के कारण मर गया। वहाँ पर कोई स्मोक अलार्म नहीं लगा हुआ था और अगली सुबह तक अलार्म नहीं बजाया गया। हालांकि आग काफी कम थी, परन्तु यह एक 21 वर्षीय व्यक्ति को जलाने के लिए काफी थी।